

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]	दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2019/वैशाख 11, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 33
No. 84]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2019/VAISAKHA 11, 1941	[N.C.T.D. No. 33

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली 30 अप्रैल, 2019

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (अस्थायी सभापति, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के चुनाव) नियम, 1974 के नियम (15) के उप नियम (2) के अन्तर्गत

स. एफ.1/22/2013/गु.चु.नि./4419.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वाँ) की धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (अस्थायी सभापति, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के चुनाव) नियम, 1974 के नियम 7 के सहित पठित, प्रावधानों के अनुसरण में, निम्नलिखित सदस्यों को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कार्यकारी समिति के पदाधिकारी के रूप में दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वाँ) की धारा 16 की उप-धारा (7) के साथ धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार 29.03.2019 के लिए या जब तक उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव नहीं हो जाता, निर्वाचित किया जाता है:-

क्रम सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
1.	मनजिन्द्र सिंह सिरसा	अध्यक्ष
2.	रंजीत कौर	वरिष्ठ उपाध्यक्ष

3.	कुलवंत सिंह बाथ	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
4.	हरमीत सिंह कालका	महासचिव
5.	हरविंदर सिंह (के. पी.)	संयुक्त सचिव
6.	हरिंदर पाल सिंह	कार्यकारी सदस्य
7.	मोहिंदर पाल सिंह चड्ढा	कार्यकारी सदस्य
8.	परमजीत सिंह चंडोक	कार्यकारी सदस्य
9.	परमजीत सिंह राणा	कार्यकारी सदस्य
10.	कुलदीप सिंह साहनी	कार्यकारी सदस्य
11.	जगदीप सिंह काह्लो	कार्यकारी सदस्य
12.	भुपिंदर सिंह भुल्लर	कार्यकारी सदस्य
13.	विक्रम सिंह रोहिणी	कार्यकारी सदस्य
14.	मलकिन्दर सिंह	कार्यकारी सदस्य
15.	जतिंदर सिंह साहनी	कार्यकारी सदस्य

शूरबीर सिंह, निदेशक गुरुद्वारा चुनाव

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS

NOTIFICATION

Delhi, the 30th April, 2019

Under Sub Rule (2) of Rule (15) of DSGMC (Election of Pro-tempore Chairman, President, other office-bearers and Members of the Executive Board) Rules, 1974.

No. F.1/22/2013/DGE/4419.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) and (2) of Section 16 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) read with Rule 7 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Pro-tempore Chairman, President, other office-bearers and Members of the Executive Board) Rules, 1974, the following members have been elected as office-bearers and members of the Executive Board of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee up to 29.03.2019 as per the provisions provided under sub-section (7) of Section 16 read with sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) or till elections of their successors are held:-

S.No.	Name of Members	Post
1.	Manjinder Singh Sirsa	President
2.	Ranjeet Kaur	Sr. Vice President
3.	Kulwant Singh Baath	Jr. Vice President
4.	Harmeet Singh Kalka	General Secretary
5.	Harvinder Singh (K.P.)	Joint Secretary
6.	Harinder Pal Singh	Executive Member
7.	Mahinder Paul Singh Chadha	Executive Member
8.	Paramjit Singh Chandhok	Executive Member
9.	Parmajeet Singh Rana	Executive Member
10.	Kuldeep Singh Sawhney	Executive Member
11.	Jagdip Singh Kahlon	Executive Member
12.	Bupinder Singh Bhullar	Executive Member
13.	Vikram Singh Rohini	Executive Member
14.	Malkinder Singh	Executive Member
15.	Jatinder Singh Sahni	Executive Member

SHURBIR SINGH, Director, Gurdwara Elections